

५२-14308
५१६
१५/७/०५
सरकार मुद्रणा...
दिनांक...
२६/०५
प्रभारी
राजपत्र



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-126
PM-05
Deptt-06
CRB-115

सं. 17]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 2004/चैत्र 2, 1926

No. 17]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 2004/CHAITRA 2, 1926

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2004

आ.अ. 23(अ).—यतः, जम्मू और कश्मीर राज्य में 1-बारामूला, 2-श्रीनगर और 3-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के बहुत से निर्वाचकों की कठिन परिस्थितियों के कारण बहुत बड़ी संख्या में प्रवास करना पड़ा और वे सामान्य निवास स्थान से दूर विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के मताधिकार को ध्यान में रखते हुए निदेश दिया है कि इनको उनके अस्थायी प्रवास के बावजूद उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उनके नाम रखे रहने/शामिल किए जाने के लिए उनके संबंधित स्थानों का सामान्यतः निवासी माना जाता रहेगा और इसलिए उनके नामों को 1-1-2004 को अर्हता की तारीख के सन्दर्भ में संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उनके नाम सम्मिलित करने की अनुमति दी गई थी।

अतः, अब, वर्ष 2004 में होने वाले लोकसभा के साधारण निर्वाचनों में मत डालने के प्रयोजन से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसरण में और केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श के पश्चात्, भारत निर्वाचन आयोग 1-बारामूला, 2-श्रीनगर और 3-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में दर्ज निर्वाचकों, जो वर्तमान में अपने सामान्य निवास से बाहर रह रहे हैं किन्तु उनके अलावा जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन विशेष मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में डाक मत पत्र देने के लिए विनिर्दिष्ट करता है बशर्ते कि वे उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

[सं. 3/ज.क./2004]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2004

O.N. 23(E).—Whereas, a number of electors of 1-Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag Parliamentary Constituencies in the State of Jammu and Kashmir had migrated because of compelling circumstances and have been temporarily in various places outside their place of ordinary residence; and

Whereas, the Election Commission of India, having regard to the right of franchise of such migrant electors, directed that these migrants shall continue to be treated as ordinarily residents of their respective places, for inclusion/retention of their names in the electoral roll of the concerned constituency, despite their temporary migration and as such their names

were allowed to be included in the electoral rolls of the said constituencies as summarily revised with reference to 1-1-2004 as the qualifying date;

Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of powers conferred by Section 60(c) of the Representation of the People Act, 1951, for the purposes of giving votes at the poll in the general election to the House of the People, to be held in the year 2004, in pursuance of the notifications to be issued by the President under Section 14 of the said Act and after consultation with the Central Government hereby specifies the aforesaid migrant electors enrolled in any of the Parliamentary Constituencies of 1-Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag, who are residing outside their place of ordinary residence, but other than those for whom special polling stations are being set up under Section 25 of the said Act, as the class of persons to give their votes by postal ballot, subject to the fulfilment of the requirements specified in the rules made under the said Act.

[No. 3/J&K/2004]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2004

आ.अ. 24(अ).—यतः, जम्मू और कश्मीर राज्य में 1-बारमूला, 2-श्रीनगर और 3-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों को कठिन परिस्थितियों के कारण बहुत बड़ी संख्या में प्रवास करना पड़ा और वे सामान्य निवास स्थान से दूर विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के मतधिकार को ध्यान में रखते हुए निदेश दिया है कि इनको उनके अस्थायी प्रवास के बावजूद उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उनके नाम रखे रहने/शामिल किए जाने के लिए उन्हें संबंधित स्थानों का सामान्यतः निवासी माना जाता रहेगा और इसलिए उनके नामों को 1-1-2004 की अर्हता की तारीख के सन्दर्भ में संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उनके नाम सम्मिलित करने की अनुमति दी गई थी।

अतः, अब, वर्ष 2004 में होने वाले लोकसभा के साधारण निर्वाचनों में मत डालने के प्रयोजन से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसरण में और केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श के पश्चात्, भारत निर्वाचन आयोग 1-बारमूला, 2-श्रीनगर और 3-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में दर्ज उक्त प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने सामान्य निवास से बाहर रह रहे हैं किन्तु उनके अलावा जिनके लिए उपरिलिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं के बाहर विशेष मतदान केन्द्र उपलब्ध कराए जाएंगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 खण्ड (ग) के अधीन व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में डाक मत पत्र डालने के लिए अधिसूचित करता है।

[सं. 3/ज.क./2004]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2004

O.N. 24(E).— Whereas, a number of electors of 1-Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag Parliamentary Constituencies in the State of Jammu and Kashmir had migrated because of compelling circumstances and have been temporarily residing in various places outside their place of ordinary residence; and

Whereas, the Election Commission of India, having regard to the right of franchise of such migrant electors, directed that these migrants shall continue to be treated as ordinarily residents of their respective places, for inclusion/retention of their names in the electoral roll of the concerned constituency, despite their temporary migration and as such their names were allowed to be included in the electoral rolls of the said constituencies as summarily revised with reference to 1-1-2004 as the qualifying date;

Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of powers conferred by Section 25 of the Representation of the People Act, 1951, for the purposes of giving votes at the poll in the general election to the House of the People, to be held in the year 2004, in pursuance of the notifications to be issued by the President under Section 14 of the said Act and after consultation with the Central Government hereby specifies the aforesaid migrant electors enrolled in any of the Parliamentary Constituencies of 1-Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag, who are residing outside their place of ordinary residence, but other than those who have been notified under clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951 to vote by postal ballot, as the class of persons for whom special polling stations shall be provided outside the territorial limits of the Parliamentary Constituencies mentioned above.

[No. 3/J&K/2004]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.